



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 16]
No. 16]

नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 7, 1978/पौष 17, 1899
NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 7, 1978/PAUSA 17, 1899

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 1978

सीमा-शुल्क

सा० का० नि० 18 (अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1977 (1977 का 11) की धारा 3 की उपधारा (4) के साथ पठित सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष सं० 71.02 के उपशीर्ष सं० (2) के अन्तर्गत सम्मिलित कोरे (रफ) हीरो को, जब उनका भारत में आयात किया जाए, वित्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन उन पर अल्पप्रहणीय समस्त सहायक सीमाशुल्क से छूट देती है।

[सं० 10/का० सं० 355/9/77 सी० शु० 1]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 7th January, 1978

CUSTOMS

G.S.R. 18(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 3 of the Finance Act, 1977 (11 of 1977), the Central Government, being

162 GI/77-1

satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts rough diamonds, falling under sub-heading No. (2) of Heading No. 71.02 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India, from the whole of the auxiliary duty of Customs leviable thereon under sub-section (1) of section 3 of the said Finance Act.

[No. 10/F. No. 355/9/77-Cus. I]

सा०का०नि० 19(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष सं० 71.02 के उपशीर्ष सं० (4) के अन्तर्गत सम्मिलित कोरे (रफ) उपरत्नों को जब उनका भारत में आयात किया जाए, उन पर उल्प्रहणीय समस्त सीमा-शुल्क जो उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, से छूट देती है।

[सं० 11/का० सं० 355/9/77 सी० शु० 1]

G.S.R. 19(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts rough semi-precious stones, falling under sub-heading No. (4) of Heading No. 71.02 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India, from the whole of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule.

[No. 11/F. No. 355/9/77-Cus. I]

सांकांमि० 20(अ)--केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1977 (1977 का 11) की धारा 3 की उपधारा (4) के साथ पठित सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जान पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष सं० 71.02 के उपशीर्ष सं० (4) के अन्तर्गत सम्मिलित कोरे (रफ) उपरस्तों को, जब उनका भारत में आयात किया जाए, उक्त वित्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन उन पर उद्घाटनीय समस्त सहायक सीमा-शुल्क से छूट देती है।

[मं० 12/फा० सं० 355/9/77-सी० शृ० 1]

एम० जयरामन, अवर सचिव

G.S.R. 20(E):—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 3 of the Finance Act, 1977 (11 of 1977), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts rough semi-precious stones, falling under sub-heading No. (4) of Heading No. 71.02 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India, from the whole of the auxiliary duty of customs leviable thereon under sub-section (1) of section 3 of the said Finance Act.

[No. 12/F. No. 355/9/77-Cus. I]

M. JAYARAMAN, Under Secy.